

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**फरवरी-अप्रैल, 2012 सत्र**

**दैनिक कार्य सूची**

**मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 2012 (फाल्गुन 23, 1933)**

**समय 10.30 बजे दिन**

## **1. प्रश्नोत्तर**

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## **2. पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991)की धारा 17 की अपेक्षानुसार महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री पारस जैन, राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगे.

## **3. नियम 138 (1) अधीन ध्यान आकर्षण**

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर संभाग के जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधिकारियों द्वारा स्वर्ण जयंती रोजगार योजना की राशि का दुरुपयोग किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री कमल पटेल, सदस्य, हरदा जिले में कृषकों को सोयाबीन फसल की बीमा राशि न मिलने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड एवं दतिया जिले के अंतर्गत मिहोना-लहार-दबोह-भाण्डेर-चिरगांव सड़क मार्ग के निर्माण में अनियमितता होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के खाचरोद क्षेत्र अंतर्गत छात्र-छात्राओं को गणवेश एवं सायकिल न मिलने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## **4. याचिकाओं की प्रस्तुति**

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिंड जिले के -

- (क) लहार स्थित नाले की सफाई एवं खुदाई कराये जाने,
- (ख) ग्राम बरौआ में 33/11 के. व्ही. विद्युत उप केन्द्र की स्वीकृति कराये जाने,
- (ग) गौरी तालाब का सौंदर्यीकरण कराये जाने,
- (घ) नगर भिण्ड में प्राचीन ऐतिहासिक किले का जीर्णोद्धार कराये जाने,
- (ड.) लहार नगर में सीवर लाईन डलवाये जाने, तथा
- (च) ग्राम सुरघान के मजरा, कन्हईपुरा स्थित तालाब की मरम्मत कराये जाने,

(2) डॉ. निशित्थ पटेल, सदस्य, कटनी जिले के -

- (क) ग्राम हथकुरी में छात्रावास खोले जाने,
- (ख) ग्राम केलवारा खरखरी बिरुहली, इथकुरी रोड की मरम्मत एवं पुलिया निर्माण कराये जाने,
- (ग) चिखला जलाशय की मरम्मत कराये जाने,
- (घ) इमलाज जलाशय की मरम्मत एवं नहर पर रपटा निर्माण कराये जाने,
- (ड.) ग्राम खिरहनी के कृषकों की अधिग्रहित भूमि के फलदार वृक्षों एवं इमारती लकड़ी का मुआवजा दिलाये जाने,
- (च) ग्राम जुजावल में नवीन हाई स्कूल खोले जाने,
- (छ) ग्राम कुआँ में संचालित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने, तथा
- (ज) ग्राम वसुधा की माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

- (3) श्री कमल पटेल, सदस्य, हरदा जिले के -  
(क) हण्डिया से गुल्लास आदि के बीच पन्नाली नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,  
(ख) ग्राम जुगारिया से बगलातर के मध्य नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,  
(ग) हण्डिया मार्ग के पास सुखनी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,  
(घ) हरदा में कृषि महाविद्यालय खोले जाने, तथा  
(ङ.) ग्राम गाडरापुर से शिवपुर मार्ग की गंजाल नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
- (4) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी जिले के -  
(क) ग्राम खितौली करचुलिहा मार्ग निर्माण कराये जाने,  
(ख) ग्राम जगुवा से हरवाह गब्दी निपनिया सड़क निर्माण कराये जाने,  
(ग) ग्राम नन्हवारा कलां से गौरहा तक सड़क निर्माण कराये जाने, तथा  
(घ) ग्राम सुडडी, रजरवारा, बरहटा मार्ग का निर्माण कराये जाने,
- (5) श्री पारस दादा, सदस्य, रतलाम शहर के -  
(क) त्रिपोलिया गेट से सागौद रोड तक डामरीकरण कराये जाने,  
(ख) त्रिपोलिया गेट से कनेरी रोड तक डामरीकरण कराये जाने,  
(ग) रतलाम से कलमोडा मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा  
(घ) जावरा शहर के वार्ड क्रमांक 30 में सुलभ शौचालय का निर्माण कराये जाने,
- (6) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, भोपाल शहर के -  
(क) वार्ड क्रमांक 36 के द्वारका नगर, कृष्णा नगर के नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने, तथा  
(ख) रायसेन जिले के बरेली कस्बे की किनगी रोड का चौड़ीकरण कराये जाने,
- (7) श्री मोती कश्यप, सदस्य, कटनी जिले के -  
(क) ग्राम उमरिया पान में बायपास रोड निर्माण कराये जाने,  
(ख) ग्राम धनोरी उमरिया पान में महाविद्यालय खोले जाने, तथा  
(ग) ग्राम खमतरा में विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने,
- (8) श्री आशाराम अहिरवार, सदस्य, दतिया जिले के -  
(क) ग्राम सिंधवारी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,  
(ख) ग्राम लहार हवेली के बीच स्थित नदी पर स्टाप डेम का निर्माण कराये जाने,  
(ग) ग्राम उड़ी से गनेश पुरा के मध्य नाले पर रपटा निर्माण कराये जाने,  
(घ) ग्राम पालीनूर की शासकीय प्राथमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,  
(ङ.) ग्राम पंचायत तैतना के माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने, तथा  
(च) ग्राम सेंथरी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,
- (9) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के -  
(क) मीनाक्षी चौक से इटारसी मार्ग का चौड़ीकरण एवं पुलिया निर्माण कराये जाने, तथा  
(ख) ग्राम ग्वाडी खुर्द से होरियापीपर तक तवा बांध का पानी पहुँचाए जाने,  
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

### 5. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का वक्तव्य

श्री कैलाश विजयवर्गीय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2006 में संशोधन विषयक मामले के संबंध में वक्तव्य देंगे.

### 6. वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा .... (क्रमशः )

भोपाल :  
दिनांक : 12 मार्च, 2012

राजकुमार पांडे  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा